

Date: 29-07-2023

The Secretary	The Secretary
Listing Department	Listing Department
BSE Limited	National Stock Exchange of India Limited
PJ Towers, Dalal Street,	Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block,
Mumbai - 400 001	Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai
Script Code: 532696	400051
	Script Code: EDUCOMP

Sub: Copies of Newspaper Advertisement – Prior Information of 27<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) to be held through Video Conferencing (VC) I Other Audio Visual Means (OAVM)

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read in accordance with the relevant circulars issued by the ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India, please find enclosed herewith copies of the Newspaper Advertisements published by the Company in the newspapers i.e. Business Standard (English Language) and Business Standard ((Hindi Regional Language) on July 29, 2023. The advertisement is in regard to intimation of 27<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on August 25, 2023, through VC / OAVM.

The above may please be treated in compliance of Regulation 47 and Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Part A of Schedule III of the said Regulations.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours Truly,

For Educomp Solutions Limited

(Under CIRP)

Mahender Khandelwal

Resolution Professional in the matter of Educomp Solutions Limited

SOLU

GURGAON

Taken on record

IBBI Reg. No IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-17/ 10086

**Note:** As informed earlier also vide various communications, had ordered the commencement of CIRP in respect of the Company under the provisions of Code. Thereafter, in accordance with Section 17 of the Code, the powers of the Board stood suspended and Dr. Sanjeev Aggarwal was appointed as interim resolution professional of the Company. The IRP carried out his duties from May 30, 2017 till Mr. Mahender Khandelwal was appointed as Resolution Professional ("RP") vide the order of NCLT dated September 12, 2017 and took over the management of the affairs of the Company.

Educomp Solutions Limited (CIN: L74999DL1994PLC061353)

Corporate office: 514, Udyog Vihar, Phase III, Gurgaon – 122001, Haryana (INDIA). Tel.: 91-124-4529000.

Registered Office: 1211, Padma Tower I, 5, Rajendra Place, New Delhi-110008.

Web site www.educomp.com; email: investor.services@educomp.com

# Price pressures deflate gas use equations

High imported gas prices and government-imposed limits on domestic pricing and supply put India's emission reduction plans and \$2 trillion of investments at risk

SDINAKAR 28 July


ity gas consumption is expected to anchor Prime Minister Narendra Modi's vision of more than doubling the share of natural gas in India's energy mix by 2030. But the strands that bind consumption of the fuel to kitchens, vehicles and industries from Rameshwaram to Kashmir are so tenuous that the slightest jump in international gas prices, coupled with stagnation in domestic production, is sufficient to fray demand.

City gas distribution (CGD) utilities were among the first to feel the impact of rising fuel prices on demand last year after customers deserted them for alternative fuels. Compressed natural gas (CNG) users in Delhi and Mumbai started switching to petrol, while industries, chemical plants and refineries switched to liquefied petroleum gas (LPG), which is mainly propane and butane in liquid form, and liquid fuels, which were cheaper compared to less-polluting natural gas and gas produced from processing crude oil.

Demand for city gas declined 0.8 per cent in FY23 to 12 billion cubic metres from a year earlier because customers could not afford the steep spike in gas prices, whether domestic or in the form of imported liquefied natural gas (LNG). The price advantage of compressed natural gas (CNG) over diesel and petrol halved to 25 per cent last financial year, compared to FY21 and FY22. At the same time, the competitiveness of piped gas against LPG cylinders for the domestic segment was reduced to 1-3 per cent, according to CRISIL Research.

growing steadily at 10 per cent a year and city gas infrastructure, the Modi govbetween 2019 and 2022. The exodus from ernment abandoned gas price reforms to city gas, which accounted for 20 per cent of all gas use and 12 per cent of total LNG use last fiscal, has continued this year, even though imported LNG prices dropped more mark indices to a percentage of the crude than 80 per cent from last year's record highs oil price. It also diverted scarce gas available - from \$70 per million British thermal units under administered prices (known as APM (Btu), the consequence of Russia's invasion gas) from fertiliser plants to city gas utilities. of Ukraine, to \$10-\$12 per million Btu.

But city gas utilities are still stumbling, even after New Delhi, on concerted lobby- domestic gas in the April-June quarter ing by these companies, slashed prices of and just 703 million cubic metres of



per million Btu and increased the allocation of cheap domestic gas for CGD players.

State-run Indraprastha Gas, the country's biggest CNG player, saw a 6 per cent decline in volumes by industry and commercial users in the April-June quarter from the previous quarter as consumers switched to naphtha, fuel oil or LPG, given favourable pricing, Nomura said in a report.

Realising the risk to over ₹2 trillion in Until then, the CGD segment had been ongoing investments in gas transportation ernment abandoned gas price reforms to embrace a price cap, and changed the pricing formula to calculate domestic gas prices from a cocktail of international gas bench-

Thanks to government largesse, city gas used 2.5 billion cubic metres (bcm) of domestic gas by around 25 per cent to \$6.5 imported LNG compared to 1.9 bcm and 1.2

bcm, respectively, a year earlier. The use of domestic gas by fertiliser plants, meanwhile, dropped by 43 per cent during

At the same time, the government raised taxes on propane, much of which is imported, to compel ceramic industries in Morbi in Gujarat, the country's biggest gasconsuming belt, to switch to piped natural gas, said Kamlesh Trivedi, an Ahmedabadbased LNG consultant. CGD volumes had slumped last year after most units shifted to cheaper propane. Morbi, India's biggest ceramic tile hub, accounts for nearly a quarter of the country's city gas sales.

Looking ahead, the natural gas market in India will be significantly influenced by government initiatives aimed at prioritising the use of natural gas to reduce emissions, said Brajesh Singh, president, Arthur D Little. Options involve imposing a carbon price or tax on burning liquid fuels to make ess polluting gas affordable to end users.

New Delhi's "band-aid" policy has certainly revived the fortunes of city gas from

the depths it plumbed in the past two years. Nomura identified IGL and MGL, India's biggest city gas companies, to be key beneficiaries of the downward revision in domestic gas prices to \$6.5/mmBtu from \$8.6/mmBtu, and a steep 33 per cent quarter-on-quarter decline in spot LNG prices to \$10.3/MMBtu.

But the future seems rocky, especially given the potential for growth in India's city gas demand. As the past two years have shown, the principal problem lies in the lack of affordable gas supplies.

CRISIL Research anticipates a substantial growth trajectory for city gas demand, with a projected compound annual growth rate of 15-20 per cent between FY23 and FY30, with volumes doubling to 85-90 million cubic metres a day from this fiscal's projected consumption. "This growth can be attributed to factors such as urbanisation, industrial expansion, and environmental considerations," said Hetal Gandhi, director, CRISIL Market Intelligence.

As for CNG, over the next 12 years, India plans to triple the number of stations to 17,700, and boost by 11-fold piped gas connections to 120 million households and businesses. The government has authorised 302 geographical areas covering nearly 98 per cent of the population, with the network poised to stretch to the Northeast and Kashmir. Seventy per cent of the areas were authorised in the last five years.

The pandemic and supply chain issues have delayed expansion of the network with the expected timeline for the completion of the entire CGD network by the middle of the next decade. But laws have been amended to levy penalties for delays in lay-

Even if infrastructure is in place, cheap, imported LNG will still be needed to power CNG's future because domestic supplies are stagnant. There is no large domestic discovery in sight, and given the long lead times involved in developing deep water areas, India's dependence on imported LNG will continue to rise — current imports at 45 per cent of demand will meet just 10-15 per cent of the government's projected demand for the fuel in 2030. That implies a growing reliance on costly imported LNG, which even at current levels costs twice the administered price of \$6.50 per million Btu at which New Delhi provides local supplies.

"One key concern is the pricing outlook," Singh said. "In such a price-sensitive market, it is crucial to maintain a reasonable gas supply price."

The growth of CGD is now hostage to the sector's affordability, and the availability of a shrinking pool of domestic supplies. When we planned to develop our gas market, we expected rates of imported LNG to be \$2-\$5 per million Btu," said an official from a state oil company. "Little did we expect the pandemic and the Ukraine conflict will lead to a structural upside in imported LNG rates, making them unaffordable for Indian consumers

# Flipkart's ESOP buyback lifts hope in start-up world

ESOP buybacks usually follow the prevailing funding trend

New Delhi, 28 July

The one piece of good news that came out of the Indian start-up ecosystem in 2023 is the \$700 million payout Flipkart has made to its employees.

It was a result of the separation of Flipkart and PhonePe. This payout has been made to close to 20,000 employees at Flipkart and Myntra.

Employee stock-option programmes (ESOPs) or buybacks of shares had been common in 2020 and 2021, when companies were flush with funds and used those to attract and reward talent.

A few weeks ago, Swiggy announced its second tranche of a planned ESOP liquidity programme, worth \$50 million. This was the fourth liquidity event from the company since 2018. But with the funding winter,

ESOPs have entered slow lane. During the first half of 2023, only nine companies announced liquidity programmes, worth over \$40 million. This was a sharp decline from previous years. The year 2021 saw ESOP

liquidity programmes cross \$400 mil-

lion. They were over \$300 million in 2022, according to the data from equity management platform Qapita. 'While the first half of 2023 has been a difficult year from an ESOP liquidity standpoint, recent announcements from Flipkart and Swiggy have the potential to turn the tide, aided by easing capital flows into the

Funding among start-ups hit new highs in 2021, when investment reached \$44.5 billion.

founder and CEO, Qapita.

market," said Ravi Ravulaparthi, co-

Since then, capital has become much harder to come by. Funding fell to almost half in 2022 at \$26.6 billion, while start-ups raised just \$5.5 billion in the first half of this calendar year, according to the data from Tracxn, a market intelligence platform.

ESOP buybacks, the primary method of liquidation for employeeowned stocks, usually follow the prevailing funding trend.

In 2022 alone, over 40 companies

#### **SWEET REWARDS**

Month-wise ESOP buyback programme announcements in 2023

Month Company Porter Sunstone ▶ Tredence March Sirona Hygiene

Betterhalf The Souled Store WeWork India

> Innoviti June ▶ WinZ0 July Flipkar

> > Swiggy Zypp Electric

announced ESOP buybacks. In

contrast, only 12 companies announced such programmes until July so far, data from Qapita signposts. Furthermore, fewer companies are disclosing the amount of their liquidity programmes. With these two announcements

alone, the ESOP liquidity amount in 2023 so far reached around \$790 million, much higher than in previous years. "We anticipate a potential uptick in ESOP buybacks among start-ups in

the future," said Manish Khanna, cofounder, Unlisted Assets, a technology-driven platform for buying and selling unlisted shares. "Once the funding winter and val-

uation figures settle down, start-ups may prioritise rewarding and retaining employees through ESOP buybacks, he added. However, the extent of this may

vary, depending on company policies and financial situations. The decision to execute such programmes will depend on a company's specific circumstances and financial comfort.

# सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

Website: www.centralbankofindia.co.in Email ID: agmcompsec@centralbank.co.ii Tel No: 022-66387818

NOTICE INVITING TENDER Central Bank of India invites bids from eligible consultancy. Advisory firms for developing framework and carrying out the evaluation of Board of Bank and its sub-committees. For details, please visit Bank's website www.centralbankofindia.co.in.

is 11.08.2023. Sd/-Place: Mumbai Asst.General Manager Date: 28.07.2023 Board Secretariat

CIN: L74999DL1994PLC061353

∟ast date of submission of bids



# **TENDER NOTICE**

Sealed tenders are invited for "Selection Personalization of Ready Kits of EMV Chip Based Contact-cum-Contactless Debit/Prepaid Cards and National Common Mobility Cards (NCMC) enabled Contactless Debit Card under rate contract for two years (2023-25)". For Eligibility, Technical specifications & other relevant details, RFP may be downloaded from Bank's website https://punjabandsindbank.co.in and https://gem.gov.in. Any further changes related to the said Tender shall be posted on Bank's/GeM website only.

Assistant General Manager (IT)

# **Educomp EDUCOMP SOLUTIONS LIMITED**

Regd. Office: 1211, Padma Tower I-5, Rajendra Place, New Delhi 110008 Tel.: 91-11-2575 5920 Fax: 91-1125766775

E-mail: investor.services@educomp.com, Website: www.educomp.com 27TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD

# THROUGH VIDEO CONFERENCING

NOTICE is hereby given that the 27th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Educomp Solutions Limited ('the Company') for financial year 2020 21 will be held on Friday, August 25, 2023 at 11:30 AM through Video Conference facility ('VC')/or Other Audio Visual Means ('OVAM') in compliance with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020, 20/2020 dated April 13, 2020, 02/2022 dated May 05, 2022 and 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circular') and SEBI Circular No SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 read with SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, Circular No SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRIP/2021/11 dated 13th January, 2021 and Circular No SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circular') and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and other applicable laws and the rules made there under.

The Annual Report of the Company for the financial year 2020-21 along with the Notice convening the AGM will be sent in due course only through email to all those Members whose email address is registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ('RTA')/Depository Participants ('DP'), in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular. The aforesaid documents will also be made available at www.educomp.com, stock exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

The instruction for attending the meeting through VC/OVAM and the manner of participation in the remote e-voting or casting vote at the AGM through e-voting is provided in the Notice convening the AGM. The Notice also contains the instructions with regard to login credentials for shareholders, holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their email address either with the Company or their respective DP.

Members participating through VC/OVAM facility shall be counted for the purpose of quorum u/s 103 of the Companies Act, 2013.

Members holding shares in physical form and who have not registered their email ids/bank account details, are requested to visit https://web.linkintime.co.in/ KYC/index.html, portal of Link Intime India Pvt. Ltd., Registrar & Share Transfer Agent of the Company and register their email ids and other details, in order to receive a copy of AGM Notice, Annual Report and login details for remote voting/evoting, through email and those holding shares in demat form are requested to contact their respective Depository Participant (DP), for the aforesaid purpose and follow the process advised by DP. In case of any query you may write to Investor Services at investor.services@educomp.com or swapann@linkintime.co.in

> For Educomp Solutions Limited (Under CIRP

Date: July 28, 2023 Place: New Delhi

Mahender Khandelwal Resolution Professional Taken on record IBBI Reg. No IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-17/10086



# Eight decades trust and togetherness











**Honours Your Trust** 

























Unaudited (Reviewed) Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2023

(₹ in Lakh) Quarter Ended 30.06.2023 Year Ended 31.03.2023 Year Ended 31.03.2023 **Particulars** 30.06.2022 31.03.2023 (Audited) (Reviewed) (Audited) 585695 594694 379659 2015898 585695 594694 379659 2015898 Total Income from Operations (net) 2. 34666 90651 19310 290511 34666 90651 19310 290511 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 90651 19310 290511 34666 19310 290511 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 22348 12361 22493 58124 186234 55745 11749 Total Comprehensive income for the period (comprising Profit/Loss) for the period NA NA NA NA NA NA NA NA (after tax) and other comprehensive income (after tax) 1195596 1195596 1195596 1195596 1195596 1195596 1195596 1195596 Paid Up Equity Share Capital 1100525 890535 1100525 877447 1084444 Reserves (excluding Revaluation Reserves) 1100525 1084444 1084444 Securities Premium Account 362571 362571 362571 362571 362571 362571 362571 362571 9 1125085 1436596 1401505 1401505 1420661 1385424 1111998 1385424 10 | Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt 0.09 0.07 0.20 0.07 0.09 0.07 0.20 0.07 11 Debt Equity Ratio 0.80 0.86 0.80 0.53 0.87 0.80 0.54 0.80 12 Earning Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations)-0.49 Basic 0.19 0.10 1.56 0.19 0.47 0.10 1.53 Diluted 0.19 0.49 0.10 1.56 0.47 0.10 1.53 0.19 Capital Redemption Reserve

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (BSE: www.bseindia.com & NSE: www.nseindia.com) and Bank's website (www.ucobank.com) 2. Information relating to Total Comprehensive Income and other Comprehensive Income is not furnished as Ind AS is



14 Debenture Redemption Reserve

Place: Kolkata Dated: 28th July, 2023












Sd/-

Raiendra Kumar Saboo



Sd/-

Ashwani Kumar



Finance Limited Char Ki Baat

नीकृत कार्यालय : 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, केजी मार्ग, नई दिल्ली**–**110001 फोन : 011–23445200, वेबसाइ : www.pnbhousing.com ,СIN NO.: L65922DL1988PLCO3

सूचना– अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हम नीचे दिए गए शाखा कार्यालय के लिए अपनी अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए आम जनता से बोलियां आमंत्रित कर हरे हैं :-

1. वसुंधरा, गाजियाबाद

इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि वे निविदा अनुभाग के तहत विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.pnbhousing.com का संदर्भ लें।

आवेदन/बोली फार्म हमारी वेबसाइट से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड किसी भी कारण से किसी भी बोली को अस्वीकार / स्वीकार

#### कब्जा सूचना

जबकि. वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम. 2002 के तहत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम २ के साथ प्रतित धारा १९/२) के तह प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर **जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** (पूर्ववर्ती जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी ने कर्जदार(ओं) / सह–कर्जदार(ओं) को **मांग सूचनाएँ** जारी की थीं जिसमें कर्जदारों से उक्त सूचनाओं में यथाउल्लिखित लागू दरों से ब्याज सहित सेंबंधित नामे के लिए उल्लिखित राशि को भगतान और / या वसुली की तारीख तक यथालाग् भविष्य की ब्याज, वहर प्रासांगिक व्यय, लागतों, प्रभारों आदि के साथ उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से **60 दिनों** के अंदर अद करने के लिए कहा गया।

	, .			
क्र. सं.	ऋण सं.	कर्जदार/सह—कर्जदार/ जमानती/बंधककर्ता	13(2) सूचना की तारीख/ बकाया देय (रु. में) तारीख तक	कब्जे की तारीख/समय कब्जे का प्रकार
1	30419670000274 और 30419440000110	1) सलाउद्दीन,	12.05.2023 रू. 5,57.249/- (रुपये पाँच लाख सत्तावन हजार दो सी उनचास मात्र) दि. 11.05.2023 को	दिनांकः 27.07.2023 समयः पूर्वा. 11:50 सांकेतिक कब्जा

प्रत्याभूत परिसंपत्ति का विवरणः श्रीमती फरीदा पत्नी मोहम्मद खान द्वारा खामित्व विस्तारित लाल प्रत्या<u>भूत पारत्यात्त का ाववरण शास्त्रा कराचा वर्ता मार्क्यम्</u> जान द्वारा दशानात्वा विरक्षात्त्व लाक् बेबा आवादी में, गाँव वंदन हुल्ला, तहसील होज खास, नहें दिल्ली—10074 स्थित खस्त्र नं 221, मूमि माप 100 वर्ग गज। **सीमाएँ— पूर्व** श्री इलियास की संपत्ति, **पश्चिमः** रोड 12 फुट चौड़ा, <del>जतार</del> थीं हनीफ की संपत्ति, **दक्षिणः** श्री सरवर की संपत्ति

जबकि यहाँ ऊपर उल्लिखित कर्जदार /सह–कर्जदार /जमानती /बंधकर्ताओं के देय राशि भगता करने में असफल रहने पर एतददारा विशेष रूप से उपर्यक्त उल्लिखित कर्जदार और सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि **जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तिय का प्रयोग कर नीचे उल्लिखित संपत्तियों / प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का उपरोक्त तारीखों को **सांकेतिव कब्जा** ले लिया है। विशेष रूप से यहाँ ऊपर उल्लिखित कर्जदार/सह–कर्जदार/जमानती/ बंधकर्ताओं और सामान्य रूप में सर्व साधारण को उपरोक्त संपत्तियों / प्रत्याभूत परिसंपत्तियों से कोई लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और उक्त संपत्तियों / प्रत्याभत परिसंपत्तियों क कोई भी लेन—देन **जन स्मॉल फाइनेंस बँक लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी स्थानः दिल्ली जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड दिनांकः 29.07.2023 जनस्मॉल फाइनेंस बैंक

<u>पंजीकृत कार्यालयः</u> दि फेयरवे, भूतल और प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ दोमलुर कोरामंगला इनर रिंग रोड, नेक्स्ट ट ईजीएल बिजनेस पार्क. चल्लाघटटा. बैंगलोर–560071 <u>शाखा कार्यालयः</u> 16/12, दूसरा तल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली—110005

(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)



आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शेरपुर, सवाई माधोपुर - राजस्थान गांव और पोस्ट - शेरपुर, सवाई माधोपुर पिन: 322001 राजस्थान

एतदृद्वारा श्रीमती अनिता जैन एवं श्री खेम चंद जैन, पता-54, पटेल नगर आलनपुर, जिला. सर्वाई माधोपुर, राजस्थान, पिन- 322001 को सूचना दी जाती है कि.

- 1.) आपने प्लॉट नंबर 4, खसरा नंबर 828/1-829, लिंक रोड, सामने कृषि मंडी, सवाई माधोपुर पर स्थित अचल संपत्ति को प्रतिभृति ऋणदाता ( आईडीबीआई बैंक लिमिटेड) के पक्ष में गिरवी रखकर आईडीबीआई बैंक की शेरपुर शाखा से बंधक ऋण लिया था।
- 2. वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफैसी) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत प्राधिकृत अधिकारी ने कर्जदारों से राशि की वसूली के लिए मांग सूचना जारी की है। इसके अलावा, सरफैसी अधिनियम, 2002 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित अधिकृत प्राधिकारियों ने 22.08.2022 को उपरोक्त प्रतिभृत संपत्तियों पर भौतिक कब्जा कर लिया है और परिसर में पड़ी चल संपत्ति के संबंध में एक 'पंचनामा' तैयार किया गया था। इसके अलावा, गिरवी रखी गई संपत्ति की नीलामी दिनांक 22.06.2023 को नीलामी के माध्यम से की गई और सफल बोलीदाता के पक्ष में बैंक द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
- उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आपसे इस नोटिस के सात दिनों के भीतर बंधक संपत्ति में पड़ी चल संपत्तियों को, भौतिक कब्जा लेने के समय तैयार की गई सुची के अनुसार, अपने कब्जे में लेने के लिए कहा जाता है, अन्यथा बैंक चल संपत्तियों का निपटान करने के लिए बाध्य होगा क्योंकि चल संपत्तियों का भंडारण (संपत्ति की प्रकृति को देखते हुए) व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होगा। इसके अलावा चल संपत्ति को संरक्षण में रखने या उसकी नीलामी करने का खर्च उसके मूल्य से अधिक होने की संभावना है। आपको आगे सूचित किया जाता है कि आप प्रकाशन शुल्क, नीलामी शुल्क
- विलंब शुल्क आदि के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होंगे। प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड दिनांक: 28.07.2023

Educomp

एड्यूकॉम्प सॉल्यूशन्स लिमिटेड CIN: L74999DL1994PLC061353

पंजी. कार्यालय : 1211, पद्मा टावर,—1-5, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली—110008 फोन : 91—11—25755920, फैक्स : 91—1125766775

ई-मे ल: investor.services@educomp.com, वेबसाइट: www.educomp.com

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आयोजित की जाने वाली

27वीं वार्षिक सामान्य बैठक तद्द्वारा सूचना दी जाती है कि वित्तीय वर्ष 2020—21 के लिए **एड्यूकॉम्प सॉल्यूशन्स** लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 27वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 25 अगस्त, 2023 को पूर्वा. 11.30 बजे, कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं 14 / 2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, 17 / 2020, 20 / 2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 02 / 2022 दिनांकित 05 मई, 2022 तथा 10 / 2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 ("एमसीए परिपत्र") तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सेबी परिपत्र सं सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांकित 5 जनवरी 2023 के साथ पठित सेबी /एचओ/सीएफडी/सीएमडी 2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022, परिपन्न सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी 2/सीआईआरआईपी/2021/11 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 और परिपत्र सं. सेबी /एचओ/सीएफडी/सीएमडी 1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 "सेबी परिपत्र") तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों और तदधीन विरचित . नियमों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेन्स सुविधा ("वीसी") / अथवा अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओवीएएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी ।

एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम के आयोजन की सूचना सहित, यथा समय, केवल ई–मेल द्वारा उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनका ई-मेल पता कम्पनी / रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट ("आरटीए") / डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स ("डीपी") के पास पंजीबद्ध है। उपरोक्त दस्तावेज www.educomp.com पर, स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट्स www.bseindia.com तथ www.nseindia.com पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

एजीएम के आयोजन की सूचना में वीसी/ओवीएएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने हेत् अनुदेश तथा रिमोट ई—वोटिंग में प्रतिभागिता अथवा एजीएम में ई—वोटिंग के माध्यम से वोर् डालने की विधि दी गई है। सूचना में, भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों के धारक शेयरधारकों, जिनके द्वारा अपना ई-मेल पता कम्पनी अथवा अपने संबंधित डीपी के पास पंजीबद्ध नहीं करवाया गया है, के लिए लॉगइन क्रेडेन्शियल्स के संबंध में अनुदेश भी दिए गए

वीसी/ओवीएएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कम्पर्न अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के प्रयोजन हेतु की जाएगी।

जिन सदस्यों के शेयर भौतिक रूप में हैं और अपनी ई-मेल आईडी ज / बैंक खाता विवरण पंजीबद्ध नहीं करवाया है, उनसे अनुरोध है कि एजीएम सूचना, वार्षिक रिपोर्ट की प्रति और रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग हेतु लॉगइन विवरण ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करने के क्रम में, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि., कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट, के पोर्टल https://web.linkintime.co.in/KYC/index.html पर जाएं और अपनी ई-मेल आईडी'ज तथा अन्य विवरण पंजीबद्ध करवाएं तथा जिन सदस्यों के शेयर डीमैट रूप में हैं जनसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रयोजनों हेतु अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट (डीपी) से सम्पर्क करें और डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया का अनुसरण करें। किसी संदेह की स्थिति में आप investor.services@educomp.com अथवा swapann@linktime.co.in पर इन्वेस्टर सर्विसेज को लिख सकते हैं।

तिथि : 28 जुलाई, 2023

स्थान : नई दिल्ली

कृते एड्यूकॉम्प सॉल्यूशन्स लिमिटेड (सीआईआरपी के अधीन

महेन्द्र खंडेलवाल समाधान प्रोफेशनल रेकार्डबद्ध किया गया

IBBI Reg. No IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-17/10086

#### कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

**DCB BANK** 

अधोहस्ताक्षरी डीसीबी बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी हैं, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिमृतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) और घारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिमूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित एक मांग नोटिस जारी किया गया है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है नामित उघारकर्ताओं, सह—उधारकर्ताओं / गारंटर से सूचना में उल्लिखित राशि को चुकाने के लिए उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर कहा गया है

जैसा कि तालिका में वर्णित राशि हैं। उधारकर्ता और सह—उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसके द्वारा उधारकर्ता, सह—ऋणकर्ता / गारंटर और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित उक्त अध्यादेश की धारा 13(4) के

तहत नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है । कर्जदारों तथा सह–कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार डीसीबी बैंक लिमिटेड की बकाया राशि तथा उस पर आगे ब्याज और लागत अदा करने के बाद ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	एग्रीमेंट सं.	कर्जदार सह–कर्जदार गारंटर एवं कानूनी वारिष	मांग सूचनाकी तिथि/मांग सूचना में बकाया	संपत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि
1.	DRHLDEL00488318	जोगिन्दर वशिष्ठ एवं	06-05-2023 / 06-05-2023 के अनुसार	फरीदाबाद, हरियाणा—121006	26-07-2023
		नविक मानटेक प्रा. लि.	बकाया रु. 1,11,31,744.75/-		

्र प्राधिकृत अधिकारी तिथिः 29-07-2023 स्थानः फरीदाबाद, हरियाणा डीसीबी बैंक लिमिटेड

रिटेलएसेट सेंटर, एक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस हाउस, टॉवर टी–2, दूसरा तल, आई–14, सेक्टर–128, नोएडा एक्सप्रेसच्य, जयपी अपार AXIS BANK प्रीनस विसटाउन, (उ.प्र.)–201301., <u>एक्सिस बैंक लिमिटेड</u> बीएफ–1ए, 2, 3, प्रथम तल, आदित्य सिटी सेन्टर, नीति खंड–1, इंद्रापुरम, गाजियाबाद–201012, <u>एक्सिस बैंक लिमिटेड</u>, 7वां तल, विपुल स्कॉवयर, सुशांत लोक, फेज–1, गुडगांव ास बैंक लिमिटेङ, हिमालाया हाउस, ऊपरी भूतल और प्रथम तल, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनॉट पैलेस, नई दिल्ली—11000 <u>कार्यालय</u>—एक्सिस बैंक लिमिटेङ, इस हाउस, टॉवर टी—2, दूसरा तल, आई—14, सेक्टर—128, नोएङा एक्सप्रेसव्य, जयपी ग्रीनस विसटाउन, (उ.प्र.)—201301., <u>कॉर्पोरेट कार्यालय</u> इ—यी, बॉम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउंड, पांडुरंग बुधाकर मार्ग, वरली, मुंबई—400025 <u>पंजीकृत कार्यागय:</u> 'त्रिशूल', तीसरा तल, समर्थवेश्वर मंदिर के सामने, लो

**मांग सूचना** नलिखित वर्णित उधारकर्ताओं/सह—उधारकर्ताओं/गारंटरॉ/बंधकों ने एक्सिस बैंक लिमिटेड से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी, वित्तीय सहाय जाभ उठाने के बावजूद, उधारकर्ताओं /गरंटरॉ/बंधकों ने नियत दिनाकों के अनुसार मुलधन के पुनर्मुगतान और ब्याज के पुनर्मुगतान में विभिन्न चूक की है। एविसस बैंक के प्राधिकृतअधिकारी के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/ दिशानिदेशों के अनुसार यहां वर्णित संबंधित दिनाकों पर खाते को गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गिकृत किया गया है। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरफसी अधिनियम, 2002 की घारा 13(2) के अंतर्गत निम्न वर्णित संबंधित दिनाकों पर माग सूचना जारी की गई है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं/गारेटरॉ/बंधकों को सूचना में वर्णित राशि का भुगतान संविदात्मतदर पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिनों के भीतर भुगतान की दिनांक तक भविष्य के ब्याज और आकस्मिक व्येयों न पाणत सारा का कुरतान सामकार नर कर रूप नागतों , प्रभारों आदि के सहित करने को कहा गया।

उनके अंतिम ज्ञात पते पर सूचना जारी की गई थी, उन्हें आसेवित वापस कर दिया गया है और इस प्रकार उन्हें इसके बारे में सार्वजनिक सचना के माध्यम से सचित

	एनपाए।दनाक
	मांग सूचना की दिनांक
सूचना का विनाक तक	ऋण राशि (रुपये)
रुपये	07 जून, 2023
2,19,71,136.16/-	19 जून, 2023
	₹. 1,71,64,930/-
उन्नीस लाख इकहत्तर	और
हजार एक सौ छत्तीस	₹. 71,17,155/-
और सोलाह पैसा मात्र)	

| पूर्वोक्त परिस्थितयों में, उपर्युक्त उघारकर्ताओं, सह—उघारकर्ताओं और/या उनके गारंटरों (जहां कभी भी लागू हो) को सलाह दी जाती है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक 60 दिनों के भीतर भविष्य के व्याज और लागू प्रमारों के साथ बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है, जिसमें विफल रहेने पर वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की घारा 13(4) और उसके लागू नियमों के अनुसार उघारकर्ताओं और बंधकों की प्रत्याभृत परिसंपत्तियों के के अनुसार उघारकर्ताओं और बंधकों की प्रत्याभृत परिसंपत्तियों के के अनुसार उघारकर्ताओं और बंधकों की प्रत्याभृत परिसंपत्तियों का कब्जा लेना भी शामिल है। सत्योभ्त अधिनीयम की घारा 13 की उप घारा (8) के प्रावधानों को और घ्यान आकर्षित किया जाती है, जिसके तहत आप उद्धरण आमंत्रित करके, निविदाय गिजी सीचे संगार्विज्ञ के विनोंक तक ही बिंक द्वारा प्रभी लागतों, प्रमारों और च्यायों के साथ बकाया येय राशि की पूरी गशि का मुगतान कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान दें कि यदि बैंक द्वारा की गई लागत, शुत्क और व्ययों के साथ सार्वजनिक नीलागी द्वारा प्रत्याभृत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन से पहले उद्धरण आमंत्रित करके, निविदाय निजी सीच से बकाया राशि की पूरी राशि मिविदा नहीं दी जाती है, तो आप प्रत्याभृत परिसंपत्ति (यो) को छुआने के हकदार नहीं होंग। कृपया व्यान दें कि उक्त अधिनियम की घारा 13(13) के अनुसार, आपको हमारी तिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपर्युक्त प्रतिभृतियों को स्थानातित्त करने से रोका जाता है।

दिनांक : 29.07.2023, स्थान: नोएडा उ.प्र.

प्राधिकत अधिकारी. एक्सिस बैंक लिमिटेड

# SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED

CIN:L65991DL1990PLC041796

Regd. Office: 5th Floor, Kundan Bhawan, Azadpur Commercial Complex, Azadpur, Delhi-110033 Corporate Office: Plot No. 492, Udyog Vihar, Phase-III, Gurugram, Haryana-122016, India Phone: 0124-4715400. Website: www.satincreditcare.com, E-mail: secretarial@satincreditcare.com

#### Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30, 2023

	(₹ in Lakhs except EPS)					
S. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2023	Quarter ended June 30, 2022	Year ended March 31, 2023		
		Unaudited	Unaudited	Audited		
1	Total Income from operations	46,371.73	34,527.35	1,55,902.33		
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	11,754.38	(27,999.11)	524.07		
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items*)	11,754.38	(27,999.11)	524.07		
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	8,787.31	(20,969.59)	481.31		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7,639.53	(20,864.95)	(1,585.36)		
6	Paid up Equity Share Capital	8,807.84	7,459.12	8,479.63		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	1,54,332.81		
8	Securities Premium Account	-	-	1,13,726.31		
9	Net Worth	1,68,664.22	1,21,312.36	1,55,390.84		
10	Outstanding Redeemable Preference Shares	Nil	Nil	Nil		
11	Debt Equity Ratio	3.83	4.22	3.66		
12	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	-	-	5,91,124.74		
13	Earnings Per Share (₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -  1. Basic:  2. Diluted:	10.23 9.91	(27.95) (27.95)	0.62 0.59		
14	Capital Redemption Reserve	2,777.00	2,777.00	2,777.00		
15	Debenture Redemption Reserve	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable		
16	Debt Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable		
17	Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable		

\*Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit & Loss in accordance with Ind-AS Rules/AS Rules, whichever is applicable

	Brief of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter ended June 30, 2023					
S.	Particulars	Quarter	Quarter	Year ended		
		ended June	ended June	March		
No.		30, 2023	30, 2022	31, 2023		
		Unaudited	Unaudited	Audited		
1	Total Income	42,204.06	66,198.77	1,76,154.48		
2	Profit/(Loss) Before Tax	11,487.14	6,969.05	34,100.04		
3	Profit/(Loss) After Tax	8,591.33	6,018.16	26,432.92		

# Notes:

Place: Gurugram

Date: 28.07.2023

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of Satin Creditcare Network Limited ('the Company') in their meeting held on July 28, 2023.
- The above is an extract of the detailed format of Results filed with the Stock Exchange(s) under Regulations 33, 52 & 63 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('the Listing Regulations'), as amended from time to time. The full format of the Results are available on the website of the Company (i.e. www.satincreditcare.com) and on the websites of the Stock Exchange(s) (i.e. NSE at www.nseindia.com and BSE at www.bseindia.com)
- For the other line items referred in Regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) and can be accessed through the website link given in point
- These Consolidated Results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND-AS) notified by the Ministry of Corporate Affairs.

For Satin Creditcare Network Limited (Harvinder Pal Singh)

Chairman cum Managing Directo DIN: 00333754

#### SHAREKHAN LIMITED

NSE SEBI Registration No. INB/INF/INE231073330 Member of National Stock Exchange of India Ltd. - Trade I.D.10733 BSE SEBI Registration No. INB/INF011073351 Member of Bombay Stock Exchange Ltd.-Clg. No.748 Member of Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) - Member ID - 56125 - SEBI Regn. No. - INZ000171337 The Ruby, 18th Floor, 29 Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai - 400028 PH. No. 61150000

#### NOTICE

This is to inform that we have initiated the process of carbonation of our bolow (autoriocal order)				
Name of Authorised Person	Trade Name of AP	Address of AP	AP Registration No.	
Archana Amarwanshi	Archana Amarwanshi	B-36, 3rd Floor Sanjay Gram, Gurgaon, Haryana, India,122001	BSE- AP0107480175149 dated 06-04-2018 NSE - AP2069106171 dated 05-04-2018 MCX - 115978 dated 10-04-2018	

Please note that above mention Authorised Person is no longer associated with us. Any person henceforth dealing with above mention Authorised Person should do so at their own risk, Sharekhan Ltd shall not be liable for any

In case of any queries Investors are requested to inform Sharekhan Ltd within 15 days from the date of issuing For Sharekhan Ltd.

Director/Authorised Signatory

#### राहुल मर्चन्डाईजिंग लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एच.नं. 1/61-बी, विश्वास नगर शाहदरा ईस्ट दिल्ली, दिल्ली-110032 ईमेल आईडी: rahulmerchandising@gmail.com, वेबसाइट: www.rahulmerchandising.in सीआईएन: L74899DL1993PLC052461, फोन: 8947023801

30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार (सेबी(एलओडीआर) विनियमावली, 2015 का विनियम 47(1)(बी)

		तिमाही समाप्त		वर्ष समाप्त
विवरण	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
कुल आय	0.00	1.51	0.00	7.06
अवधि के लिए शुद्ध लाग / (हानि) (कर, विशिष्ट और / या असाधारण मदों के पूर्व)	(2.01)	(0.30)	(1.09)	(0.90)
कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पश्चात)	(2.01)	(0.30)	(1.09)	(0.90)
कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाग / (हानि) (विशिष्ट और /या असाधारण मदों के पश्चात)	(2.01)	(0.30)	(1.09)	(0.90)
अवधि के लिए कुल समग्र आय [अवधि के लिए लाम / (हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) शामिल]	(2.01)	(0.30)	(1.09)	(0.90)
इक्विटी शेयर पूंजी	351.23	351.23	351.23	351.23
आरबित (पुनर्मूत्यांकन आरबित को छोड़कर) पूर्व वर्ष के लेखापरीबित तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार	-	-	-	-
प्रति शेयर अर्जन (रु. 10/— प्रत्येक कें) (चालू व बंद परिचालनों के लिए) —				
1. मूल 2. तरल	(0.06) (0.06)	(0.01) (0.01)	(0.03) (0.03)	(0.03) (0.03)
नोटः ऊपर सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) निय	मावली, 2015 के	नियम ३३ के त	हत स्टॉक एक्सचे	ांजों में पेश किए

गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.rahulmerchandising.in पर भी उपलब्ध है।

हिते **राहुल मर्चन्डाईजिंग लिमिटेड** 

(वैभव गोयल) दिनांकः 28.07.2023 (पर्णकालिक निदेशक) स्थानः दिल्ली दीआईएनः **07899**594

# **AXIS BANK LTD.**

1. डा

स्ट्रक्चर्ड एसेट्स ग्रुप, प्लॉट  $I extsf{-}14$ , टॉवर 4, चौथी मंजिल, सेक्टर 128, नोएडा (उ.प्र.)-201304

चल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना अघोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके पश्चात ''सरफैसी अधिनियम'' संदर्भित) के तहत **एकिस** 

**बैंक** लिमिटेड ( इसके पश्चात ''बैंक'' सन्दर्भित) का अधिकत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदर् शक्तियों के उपयोग में कर्जदार/जमानती(यों)/बंधककर्ता(ओं) से सूचना में उल्लिखित व्याज सहित रात्रि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना तिथि 01.03.2021 जारी की थी। किन्तु कर्जदार/जमानती(यों)/वंधककर्ता(ओं) द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल सेने के कारण वैंक ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ पठित सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत यहां नीचे उल्लिखित सम्मिचयों पर 14.07.2022 को **भीतिक कब्जा** कर लिया है, जिसकी बिक्री "जहाँ **है जैसे है आधार**", "**जो है वही है आधार**", "**जो कु**छ है वहीं है आधार" तथा "उपचार रहित आधार" पर ई-नीलामी के माध्यम से की जायेगी।

प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित विचीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) वे तहत ई-नीलामी द्वारा अचल सम्पत्तियों की बिक्री। एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार/जमानती(यों)/बंधककर्ता(ओ) को सूचित किया जाता है कि यहाँ वर्णित अचल सम्पत्तिचों को बिक्री ''जहाँ है जैसे है आधार'', ''जो है यही है आधार'', ''जो कुछ है वहीं है आधार'' तथा ''उपचार रहित आधार'' पर इस सूचना में उल्लिखित तिथि तथा समय पर सार्वजनिक आमन्त्रण/ई-नीलामी के माध्यम से अधिकृत प्राधिकारी द्वारा की जायेगी। इच्छुक संविद्यकार बिक्री के अधिक विवरण/शती के लिए यदि आवस्थक समझें तो अधिकृत प्राधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

कर्जदार/जमानती( यों )/बंधककर्ता( ओ ) के नाम	प्रतिभूत ऋण
डार्ट एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार, दृष्टिबंधककर्ता और बंधककर्ता) ए-50/4, पहली ल, मायापुर्ते फेज-1, नई दिल्ली-110064, 2. श्री विनोद कुमार नौटियाल (गारंटर) फ्लैट नं. 42%, ट बी-5 और 6, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070, 3. श्रीमती ज्ञांश नौटियाल (गारंटर) फ्लैट नं. 6, पॉकेट बी-5 और 6, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070, 4. श्रीमती अनीता शर्मा (गारंटर) फ्लैट	बयासी हजार सैंतीस एवं अट्ठाईस पैसे मात्र) (इसमें 31.01.2021 तक प्रयुक्त ब्याज शामिल है) तथा भुगतान तक सम्पूर्ण भावी ब्याज और अन्य प्रभार केडिट. यदि कोई हो, को घटाकर

1. फेट नेट प्रइशेट लिमिटेड (कर्नदार, दृष्टिबंधककर्ता और बंधककर्ता) ए-50/4, पहली मंजिल, मायापुरी फेज-1, नई दिल्ली-110064, 2. श्री विनोद कुमार नीटियाल (गास्टर) फ्लैट नं. 42%, पॅकिट बी-5 और 6, वसंत कुज, नई दिल्ली-110070, 3. श्रीमती शशि नीटियाल (गास्टर) फ्लैट नं. 42%, पॅकिट जीर है, बसार कुछ, १२ वस्ता ने जिल्हा है। जीन साम साथ साथ साथ साथ स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थ बी–5 और है तसते कुंज, नई दिल्ली–110070, 4. डार्ट एयर सर्विसेज प्रदृष्टि लिमिटेड (बंधककर्ता तथा गारंटर) ए–50/4, पहली मॉजल, मायापुरी फेज–1, नई दिल्ली–110064

प्रभार, क्रेडिट, यदि कोई हो, को घटाकर

सम्पत्ति का विवस्ण	आरक्षित मूल्य	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
1) 15 नग स्प्लिटप्रसी, (2) 1 नग विंडो एसी, (3) 11 नग सीलिंग फैन, (4) 4 नग वॉल फैन, (5) 4 नग प्रिंटर, (6) 2 नग वाटर त्तर, (7) 5 नग बैटरी, (8) 1 नग 4 सीटर सोग्त, (9) 2 नग कॉर्नर टेबल, (10) 1 नग बढ़ी मैज, (11) 1 नग गोलमेज, (12) नग कॉर्फ़र टेबल, (13) 13 नग कॉर्फ़र रून की कुर्समी, (14) 28 नग 4 ड्रॉर दरतांवेज, (15) 8 नग डेक्टरॉग, (16) 28 नग ग्वाल रैक, (21) 5 नग सीप्रयु, (22) 18 नग क्युविकल्स, (23) 4 नग लकड़ी की अलमारी 2 स्लैब, (24) 1 नग लकड़ी की लमारी 3 स्लैब, (25) 3 नग लकड़ी की बढ़ी अलमारी, (26) 1 नग माइक्रोवेच ओवन, (27) 1 नग फिज, (28) 1 नग स्टील लमारी, (29) 1 नग खेजी सेट	लाख ईएमडी: रु. 0.28	06.09.2023 को 11.30 बजे अप. से 12.30 बजे अप. के बीच

मुहरबन्द निविदाएं बेबसाइट https://axisbank.auctiontiger.net के माध्यम से नीचे दी गयी अनुसूची के अनुसार ऑनलाइन जमा की जा सकती हैं। आर्रक्षित मृल्य . २.७७ लाख (रूपये दो लाख सतहत्तर हजार मात्र रु. 0.28 लाख (रुपये अट्ठाईस हबार मात्र) जमा धरोहर राशि (ईएमडी) डिमाण्ड डाफ्ट 'एक्सिस बैंक लिमिटेड' के पक्ष में दिल्ली में देय 01.09.2023 को 4.00 बजे अप. तक निम्नलिखित में किसी भी पते पर जम इंएमदी जमा एक्सिस बैंक लिमिटेड, स्ट्रब्वर्ड एसेट्स ग्रुप, प्लॉट I-14, टॉक्र 4, चौथी मंजिल, सेक्टर 128, नोएडा (उ.प्र.) -201304 तथा एक्सिस बैंक लिमिटेड, प्लॉट नं. 25, उसरा तल, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 या अधिकृत ग्राधिकारी से पूर्व परिचर्चा/अनुमति के साथ पारस्परिक सहमति के आधार पर। अधिकृत ग्राधिकारी (मोबाइल नं. +91–284082352/ Recoverycell.north@axisbank.com) की पूर्व अनुमति से 01.09.2023 से 04.09.2023 तक 11.30 बजे पूर्वा. से 3.30 बजे अप. के बीच किसी भी कार्यदिवस पर **ई**-नीलामी की तिथि एवं 06.09.2023 को 11:30 बजे पूर्वा. से 12:30 बजे अप. के बीच यदि संविदा अन्तिम पांच मिनटों में रखी जाती है तो पांच मिनट के असीमित संविदा वृद्धि राशि ह. 1,000 / – (रुपये एक हजार मात्र) तथा इसके गुणक में बँक को जात ऋण भार मुकदमाः 1. प्रतिभृतिकरण आयेदन (एसए) यानी डार्ट एयर सिक्योरिटीज लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड (2022 का एसए नंबर 149 डीआरटी- क दिल्ली में लीवत है। 2. रिट याचिका (ङब्ल्यूपी) नं. 5702/2023 डार्ट एयर सिक्योरिटीज लिम्टिड बनाम एक्सिस बैंक लिम्टिड दिल्ली उच्च न्यायालय में लिम्बत है। 3. एम.ए. सं. 662/2022 डार्ट एयर सिक्योरिटीज लिम्टिड बनाम एक्सिस बैंक लिम्टिड तीस हजारी करता चन्न पात्रपात ने पात्रपात है। 4, 2. मूल आवेदन (ऑए) प्रिक्स वैक तिमिटेड बनाम डार्ट एयर सर्विसेज प्रकृति पार्टिड और अन्य नायात्रपार, दिल्ली में लाम्बित है। 4, 2. मूल आवेदन (ऑए) पृक्सिस वैक तिमिटेड बनाम डार्ट एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2022 का ओ.ए. नं. 62) बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए डीआरटी–क दिल्ली में लंबित है। 5. मूल आवेदन (ऑए) एक्सिस बैंक

नोट : कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर भावी व्याज एवं अन्य प्रभारों सहित कुल बकायों के पुनर्भुगतान हेतु 30 दिनों की सूचना दी जाती है जिसमें असफल होने पर सम्मित को इस सूचना में उल्लिखित अनुसूची के अनुसार

लिमिटेड बनाम फ्रेंट नेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2022 का ओ.ए. नं. 45) डीआरटी-क, दिल्ली में बैंक की बकाया राशि की

किसी पूछताछ के लिए सम्पर्क करें : 8284082352; RecoveryCell.north@axisbank.com. निवम **एवं फर्ने** 1 सम्पत्ति की विकी बैंक के अधिकत प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में बैंक के अनमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई-पोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीव लि. (ऑक्शन टाइगर) अहमदावा

के माध्यम से ई-नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन की जायेगी। 2. नीलामी बिक्की/संविदा उपर्युक्त तिथियों पर प्रत्येक 5 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार के साथ वेबसाइhttps://axisbank.auctiontiger.net /साथ ही AuctionTiger mobile app के माध्यम से केवल '' ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली'' द्वारा की जायेगी। 🛭 3. यह विक्री इस सुचना तथा निर्धारित निविदा दस्तावेज में शामिल नियम एवं शर्तों के कठोरता से अनुपालन में की जायेगी। इस विक्री सुचना के भाग के रूप में बिक्री के नियम एवं शर्तों वाला निविदा दस्तावेज ई-नीलामी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या उपर्युक्त पते से अधिकृत प्राधिकारी की पूर्व अनुमित लेकर 01.09.2023 से 04.09.2023 तक 11.30 **बजे पूर्वा, से 3.30 बजे अप,** के बीच शनिवार, रविवार तथा बैंक अवकाशों को छोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। 4. चल सम्पत्ति का निरीक्षण पारस्परिक सहमति से निर्धारित तिथि एवं समय पर किया जा सकेगा। प्रासंगिक दस्तावेचों का निरीक्षण पूर्व अनुमति लेकर किया जा सकेगा जो बैंक के पास उपलब्ध है। 5. इच्छुक क्रेता द्वारा यहाँ ऊपर उल्लिखिल ईएमडी राशि नई दिल्ली में देव 'एक्सिस वैंक लिम्टिड' के पक्ष में आहरित डिमाण्ड ड्राम्ट के माध्यम से यहां कपर उल्लिखित पते पर अधिकतम 01.09.2023 को 4.00 बजे अप तक जमा की जानी है। इच्छुक क्रेता को (i) सेंबिटाकार का पूरा नाम (ii) पैन कार्ड की प्रति, (iii) सिक्रय मोबाइल नम्बर, (iv) ई-मेल पता तथा (v) पते का प्रमाण भी जमा करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट (इंप्सडी) के पीछे संविदाकार का पूरा नाम, पता तथा सम्पर्क नं. एवं ई-मेल आईडी लिखी होनी चाहिए (पोर्टल में निर्धारित प्रारूप के अनुरूप अन्य प्रारूप मे जमा संविदाएं विचार योग्य नहीं होंगी। मुहरबन्द लिफाफ में संविदाकार का विवरण (केवाईसी दस्तावेज जैसे फोटो आईडी पहचान-पत्र, पैन कार्ड तथा पते का प्रमाण एवं ई-मेल आईडी) एवं इंपमडी बैंक के कार्यालयी पते-या तो (1) स्टुक्चर्ड एसेट्स ग्रुप, प्लॉट I-14, टॉवर 4, चींबी मौजल, सेक्टर-128, नोएडा (उ.प.)-201304 अथवा (2) एक्सिस बैंक लिमिटेड, प्लॉट ने. 25, उसरा तल, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 पर जमा की जानी है। 6. कृपया ध्यान दें कि इच्छुक क्रेताओं को ई-नीलामी केवल तभी भाग लेने और बोली की अनुमति दी जायेगी जब दस्तावेजों सहित ईएमडी राशि यहां ऊपर बिन्दु 5 में उल्लिखित रीति से बैंक को प्राप्त होगी। 7. ईएमडी जमा करने के उपरान संविदाकार को संविदा प्रपञ<sup>्</sup>रपाडी को वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। 8. पात्र संविदाकारों ने जन्होंने यहां ऊपर विन्दु 5 में वांछित अपेक्षाओं का विधिवत अनुपालन किया है उनसे सम्पर्क किया जावेगा और ई-नीलामी पोर्टल में भाग लेने और संविदा जमा करने के लिए यूजर आईडी तथा पासवर्ड दिया जायेगा। मुहरवन्द संविदाएं केवल https://axisbank.auctiontiger.ne/ पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में ऑनलाइन जमा की नायेगी। ९. कृपया घ्यान दें कि इच्छुक संविदाकार ई-नीलामी पर **शैसर्स** ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि., ए-8०१, वॉल स्ट्रीट-2, सामने ओरिएन्ट क्लब, निकट गुजरात कॉलिज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात : 079-40230 810/811/804/; सम्पर्क व्यक्ति : हार्दिक गोस्तामी या आकाज खेर, मोबाइल ने. 9265562821 / 9833398547 / 6351896832 या ई-मेल : maharashtra@Auctiontiger.net / hardik@auctiontiger.net या लिण्डलाइन ने. 079 61200 594 / 598 / 559 / 587 / 554 से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। 10. नीलामी वेबसाइट https://axisbank.auctiontiger.net पर 06.09.2023 को 11.30 बजे पूर्वो. से 12.30 बजे अप. के बीच यदि संविदा अन्तिम पांच मिनटों में रखी जाती है तो पांच मिनट प्रत्येक के स्वतः विस्तार सहित ऑनलाइन संचालित होगी। संविदाकार अपने प्रस्ताव इंटर–से बोली के माध्यम से बढायेंगे इंटर-से बोली मुहरबन्द संविदा के माध्यम से प्राप्त उच्चतम संविद्ध की राशि से प्रारम्भ होगी। संविदाकार अपने प्रस्ताव ''संविदा वृद्धि राशि'' कॉलम के तहत उल्लिखित राशियों के गुणक में अपने प्रस्ताव बढ़ायेंगे। यदि संविदा ई-नीलामी बन्द होने के अन्तिम पांच मिनट में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा। जो संविदाक 🖣 नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति उच्चतम संविदा राशि ( आरक्षित मुल्य से कम नहीं) जमा करता है उसे सफल संविदाकार घोषित किया जायेगा और इस प्रभाव से इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिव माध्यम से जारी की जायेगी जो अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनदार के अनुमोदन के अध्यधीन होगी। 11. अधिकृत प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताएँ किसी/याँ सभी पुरतावों/संविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने या नीलामी बिक्री को स्थिगत. आस्थिंगत या निरस्त करने का अधिकार है। 12. असफल संविदाकार ईएमडी राशि वापस प्राप्त करने लिए बैंक के अधिकृत प्राधिकारी से सम्पर्क करें जिसे नीलामी की तिथि से एक सप्ताह के भीतर उन्हें बिना ब्याज के वापस कर दिया जायेगा। 13. सफल क्रेता पहले से भुगता की गई ईएमडी को समायोजित करने के बाद, उसी दिन या अगले कार्य दिवस पर, बिक्री मुल्य की राशि का 25% जमा करेगा, ऐसा नहीं करने पर बिना किसी पूर्व सुचना के ईएमडी जन्त कर ली जायेगी। विक्री मूल्य का शेष 75% अधिकृत प्राधिकारी द्वारा विक्री की पुष्टि की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर या ऐसी विस्तारित अविध [जैसा कि सफल खरीदार औ बैंक के बीच सहमति हो, किसी भी मामले में 3 महीने से अधिक नहीं] के भीतर देय है। ऊपर उल्लिखित निर्धारित अवधि के भीतर शेष राश जमा करने में विफल रहने की स्थिति में, इसे निवदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार निपटाया जाएगा। 14. प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) के अनुसार कर्जदारगारंटर/बंधक को एतद्वारा सुचना दं जाती है कि यदि दिनांक 01.03.2021 की मांग सुचना के अनुसार बकावा राशि का पूरी तरह से भुगतान नहीं किया जाता है तो इस सूचना के अनुसार प्रतिभृत/उपरोक्त आस्तियों की बिक्रों की जाएगी। 15. कन्वीऐस, स्टॉप शुल्क, पंजीकरण आदि के सभी शुल्क और यथाप्रयोज्य सभी कर आदि, केवल सफल बोलीवता हारा वहन किया जाएगा। 16. इस सूचना मे कुछ भी उपरोक्त संपत्ति/यों को बेचने के लिए बैंक की ओर से किसी भी प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है या नहीं माना जाएगा। बैंक / प्राधिकृत अधिकारी किसी भी कारण से बिक्री को रद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है या बिना कोई कारण बताए बिक्री को निरस्त कर सकता है और इस तरह के निरस्तीकरण पर बोलीदाता कोई प्रश्न नहं खड़ा कर सकते हैं। 17. उपर्युक्त बिक्री देयता के अतिरिक्त सभी प्रयोज्य कर, लेवी तथा शुल्क अदा करना सफल संविदाकार का दायित्व हो और बैंक इसके लिए कोई उत्तरदायित नहीं लेगा। 18. यह प्रकाशन अग्रिम में उपर्युक्त कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं के लिए तीस दिवसीय सचना भी है। 19. बैंक के ऋण और ऊपर उल्लिखित के अतिरिक्त ऋणभार यदि कोई हो, बैंक के संज्ञान में नहीं है। 20. यदि विक्री/नीलामी आरक्षित मुल्य से कम की राशि की बोली (बोलियों) के अभाव में स्थगित/विफल हो जाती है, तो बैंक के पास विचीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अनुसार संपंचि की बोली लगने और अधिग्रहण करने का अधिकार सुरक्षित हैं। 21. सरफैसी अधिनियम के तहत बिक्री प्रमाण पत्र सफल क्रेता के पक्ष में पूरी बोली राशि और अन्य शुल्क यदि कोई हो, के धुगतान के बाद ही निष्पादित किया जाएगा। 22. विशेष निर्देश और सावधानीः संविदाकारों को स्वयं के हित में अन्तिम मिनट/सेकण्ड में बोली से बचना चाहिए। न तो एक्सिस बैंक और न सेवा प्रदाता ऐसे मामलों में विक्रंता के पक्ष से किसी कमी/फेल्योर (इन्टरनेट फेल्योर, पॉवर फेल्योर आदि) के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी विषम स्थिति से बचने के लिए संविदाकारों से सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ/विकल्प तैयार रखने क निवेदन किया जाता है ताकि वे ऐसी स्थिति से निपटने में सक्षम हो सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग लेने में समर्थ हो सकें।

नोट : अधिकृत प्राधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी संविदा या संविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिक्री/नीलामी को स्थगित या निरस्त करने क

तिथि : 29.07.2023 अधिकृत प्राधिकारी (एक्सिस बैंक लिमिटेड)